



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012025-260527
CG-DL-E-28012025-260527

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 473]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 27, 2025/माघ 7, 1946

No. 473]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 27, 2025/MAGHA 7, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2025

का.आ. 477(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३क की उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग के २९.६०० से कि.मी ३९.२५० (कारंदवाडी – कसवे डिग्रज)(विशेष भूसंपादन अधिकारी -१, सांगली) तक के निर्माण (चौड़ा करने दो/चार लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे दी गई अनुसूची में दिया गया है. ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

और जब कि उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा ३ क की धारा १३ के तहत "दैनिक सकाळ" दिनांक १९-०९-२०२४ व "टाइम्स ऑफ इंडिया" दिनांक १२-०९-२०२४, इन अखबार में प्रकाशित किया गया है।

और सक्षम प्राधिकारी को कसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं।

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपना विवरण केंद्र सरकार को सौंप दिया है।

अब इसलिए, केंद्र सरकार, सक्षम प्राधिकारी का उक्त विवरण प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की उपधारा (१) धारा ३० द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि उपरोक्त उद्देश के लिए अधिग्रहण किया जाना चाहिए;

और इसके अलावा, केंद्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा अतिरिक्त ३ घ की उपधारा (२) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि सभी बंधनों से मुक्त होकर पूरी तरह से केंद्र सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में NH १६६ के कि.मी २९.६०० से कि.मी ३९.२५० (कारंदवाडी – कसबे डिग्रज) (विशेष भूसंपादन अधिकारी -१, सांगली) के अंतर्गत आने वाली संरचना के साथ या बिना संरचना के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सांगली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मिरज					
गांव का नाम: तुंग					
1	११७	निजी	कृषक	0.0026	रघूनाथ मारुती कांबळे 117
2	१२०	निजी	कृषक	0.0007	आनंदा बाबू कांबळे, केरबा बाबू कांबळे, धोंडीराम बाबू कांबळे. 120
गांव का नाम: कसबे डिग्रज					
3	१४७६	निजी	कृषक	0.0048	हरी विठ्ठल पाटील, चंद्रकांत सत्याप्पा सरडे 1476
4	१४७७/अ	निजी	कृषक	0.0002	दत्तात्रय रामचंद्र पाटील, दिनकर पांडूरंग पाटील, मालाताई संजय पाटील, शेवंताबाई पांडूरंग पाटील, छायाताई सुभाष पाटील, शांता भगवान पाटील, पतंग भगवान पाटील, माणिक भगवान पाटील. 1477/A
5	३५८	निजी	कृषक	0.001	आनंदा दिनकर कांबळे, विजय दिनकर कांबळे, वैशाली शामराव पवार, छायाक्का दिनकर कांबळे, शैला राजू कांबळे, आकाश राजू कांबळे, नेहा सागर कांबळे, प्राची राजू

					कांबळे. 358
6	३५९	निजी	कृषक	0.0007	भास्कर राघू कांबळे, शामराव राघू कांबळे, अधिकराव राघू कांबळे, वसंतराव राघू कांबळे, आक्काताई राघू कांबळे, चंद्राबाई महिपती कांबळे, सुरेश महिपती कांबळे, लता अशोक कांबळे, सिद्धार्थ महिपती कांबळे, अमोल महिपती कांबळे, शिवा पिरा कांबळे, शंकर पिरा कांबळे, बबन पिरा कांबळे, संभा पिरा कांबळे, बाबासो लक्ष्मण कांबळे, सुभाष लक्ष्मण कांबळे, माधवी मनोहर तीरमिरे, सुशिल लक्ष्मण कांबळे, चंद्ररत्न लक्ष्मण कांबळे, कामिनी सुनिल कांबळे, कुबेर धर्मा कांबळे, अधिकराव धर्मा कांबळे, आक्काताई धर्मा कांबळे, कल्पना तानाजी कांबळे, निता अनिल गाडे. 359
7	५५०	निजी	कृषक	0.0176	जनार्दन तुकाराम कांबळे, मंगल रविद्र कांबळे, मिलींद रविंद्र कांबळे, सचिन रविंद्र कांबळे, दर्शन रविंद्र कांबळे, सम्मेद रविंद्र कांबळे, सविता निशीकांत कांबळे, माधुरी सुनील सोनवने. 550
8	५५१	निजी	कृषक	0.0034	बाळू चांगदेव कांबळे, महादेव चांगदेव कांबळे, भुपाल काशिनाथ कांबळे, श्रीपती काशिनाथ

					कांबळे, चंदु काशिनाथ कांबळे, रुक्मीणी काशिनाथ कांबळे, आकाताई रामचंद्र कांबळे, उज्वला शिवाजी कांबळे, प्रमिला भुपाल पवार, सुमन आण्णा साळवे. 551
9	५५२	निजी	कृषक	0.0004	सुखदेव श्रावण कांबळे, दादु भाऊ कांबळे, अशोक आण्णा कांबळे. 552
10	५५४	निजी	कृषक	0.0061	अशोक आण्णा कांबळे एकुपे 554
11	५५५	निजी	कृषक	0.0128	सुखदेव श्रावण कांबळे 555
12	५५६	निजी	कृषक	0.004	मंगल मधुकर कांबळे, निलेश मधुकर कांबळे, शैलेजा गौतम कांबळे, रेखा शरद कांबळे, राकेश शरद कांबळे, माधुरी गणेश गायकवाड, योजना नंदकुमार कांबळे, नेहा नंदकुमार कांबळे, अपेक्षा नंदकुमार कांबळे, कांदबरी दत्तात्रय कांबळे. 556
13	५५७	निजी	कृषक	0.0005	विठलदास मनजी पटेल 556
Total				0.0548	

[फा. सं. RO/MUM/NH(O)/2022-23/01/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2025

S.O. 477(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 3777(E)**, Dated: **03.09.2024**, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956)

(hereinafter referred to as the Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification **for construction, maintenance, management operation oh NH 166H in the stretch of land from Km. 29/600 to Km. 39/250 (Section Karandwadi – Kasbe Digraj) (Special Land Acquisition Officer-1, Sangli)** in the district of Sangli in the state of Maharashtra.

And whereas the substance of the said notification has been published in **"Dainik Sakal" dated, 19.09.2024 and "Times of India" dated 12.09.2024** under sub-section 13 of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person to the competent Authority.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) section 30 of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section Additional 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 166H in the stretch of land from Km. 29.600 to Km. 39.250 (Section Karandwadi – Kasbe Digraj) (Special Land Acquisition Officer-1, Sangli) in the district of SANGLI in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: SANGLI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Miraj					
Village: Tung					
1	117	Private	Agriculture	0.0026	Raghunath Maruti Kamble 117
2	120	Private	Agriculture	0.0007	Ananda babu kamble, Kerba Babu Kamble, Dhondiram babu kamble. 120
Village: Kasbe Digraj					
3	1476	Private	Agriculture	0.0048	Hari Vitthal Patil, Chandrakant Satyappa Sarade 1476
4	1477/A	Private	Agriculture	0.0002	Dattatray Ramchandra Patil, Dinkar Pandurang Patil, Malatai Sanjay Patil, Shevantabai Pandurang Patil, Chayatai Subhash Patil, Shanta Bhagwan Patil, Patang Bhagwan Patil, Manik Bhagwan Patil. 1477/A
5	358	Private	Agriculture	0.001	Ananda Dinkar Kamble, Vijay Dinkar

					Kamble, Vaishali Shamrao Pawar, Chhayakka Dinkar Kamble, Shaila Raju Kamble, Akash Raju Kamble, Neha Sagar Kamble, Prachi Raju Kamble. 358
6	359	Private	Agriculture	0.0007	Bhaskar Raghu Kamble, Shamrao Raghu Kamble, Adhikrao Raghu Kamble, Vasantao Raghu Kamble, Akkatai Raghu Kamble, Chandrabai Mahipati Kamble, Suresh Mahipati Kamble, Lata Ashok Kamble, Siddharth Mahipati Kamble, Amol Mahipati Kamble, Shiva Pira Kamble, Shankar Pira Kamble, Baban Pira Kamble, Sambha Pira Kamble, Babaso Laxman Kamble, Subhash Lakshman Kamble, Madhavi Manohar Tirmire, Sushil Laxman Kamble, Chandraratna Laxman Kamble, Kamini Sunil Kamble, Kuber Dharma Kamble, Adhikrao Dharma Kamble, Akkatai Dharma Kamble, Kalpana Tanaji Kamble, Nita Anil Gade. 359
7	550	Private	Agriculture	0.0176	Janardan Tukaram Kamble, Mangal Ravindra Kamble, Milind Ravindra Kamble, Sachin Ravindra Kamble, Darshan Ravindra Kamble, Sammed Ravindra Kamble, Savita Nishikant Kamble, Madhuri Sunil Sonawane. 550
8	551	Private	Agriculture	0.0034	Balu Changdev Kamble, Mahadev Changdev Kamble,

					Bhupal Kashinath Kamble, Shripati Kashinath Kamble, Chandu Kashinath Kamble, Rukmini Kashinath Kamble, Akatai Ramchandra Kamble, Ujwala Shivaji Kamble, Pramila Bhupal Pawar, Suman Anna Salve. 551
9	552	Private	Agriculture	0.0004	Sukhdev Shravan Kamble, Dadu Bhau Kamble, Ashok Anna Kamble 552
10	554	Private	Agriculture	0.0061	Ashok Anna Kamble Ekupe 554
11	555	Private	Agriculture	0.0128	Sukhdev Shravan Kamble 555
12	556	Private	Agriculture	0.004	Mangal madhukar kamble, Nilesh Madhukar Kamble, Shaileja Gautam Kamble, Rekha Sharad Kamble, Rakesh Sharad Kamble, Madhuri Ganesh Gaikwad, Yojana Nandkumar Kamble, Neha Nandkumar Kamble, Apeksha Nandkumar Kamble, Kadambari Dattatray Kamble 556
13	557	Private	Agriculture	0.0005	Vithaldas Manaji Patel 556
Total				0.0548	

[F. No. RO/MUM/NH(O)/2022-23/01/3D]

ABHAY JAIN, Director